



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379]
No. 1379]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2006/कार्तिक 25, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2006/KARTIKA 25, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006

का.आ. 1976(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के विल्लूपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 121/000 कि.मी. से 214/300 कि.मी. तक के भूखण्ड (टिन्डीवनम-विल्लूपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), राष्ट्रीय राजमार्ग, विल्लूपुरम, तमिलनाडु, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;
और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडू राज्य के विल्लूपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 121/000 कि.मी. से 214/300 कि.मी. तक (टिन्डीवनम - विल्लूपुरम - तिरुचिरापल्ली खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	विल्लूपुरम	1. टिन्डीवनम	(1) टिन्डीवनम	टिन्डीवनम टाउन वार्ड - बी ब्लॉक - 4			
				टी एस सं.211/2	निजी	मनई	120
				टी एस सं.211/3	निजी	मनई	120
				टी एस सं.211/4	निजी	मनई	120
				टी एस सं.211/5	निजी	मनई	120
				टी एस सं.213/2	निजी	मनई	114
				टी एस सं.213/3	निजी	मनई	120
				टी एस सं.213/4	निजी	मनई	120
				टी एस सं.213/5	निजी	मनई	120
				टी एस सं.213/6	निजी	मनई	120
				टी एस सं.213/7	निजी	मनई	120
				टी एस सं.242/2	निजी	मनई	60
2			(2) कावेरीपक्कम	टिन्डीवनम टाउन वार्ड - ई ब्लॉक - 10			
				टी एस सं.1/33	निजी	मनई	22
				टी एस सं.1/34	निजी	मनई	13
				टी एस सं.1/35	निजी	मनई	6
				टी एस सं.1/39	निजी	मनई	48
				टी एस सं.1/40	निजी	मनई	50
				टी एस सं.1/41	निजी	मनई	35
				टी एस सं.1/43	निजी	मनई	60
				टी एस सं.1/44	निजी	मनई	60
				टी एस सं.1/47	निजी	मनई	60
				टी एस सं.1/48	निजी	मनई	55
			(3) वेलगमपाडी	215/11	निजी	शुष्क	242

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				215/12	निजी	मनई	338
		2. विल्लुपुरम	(1) अयूरअगरम	98/3	निजी	नाथम	358
				98/4	निजी	नाथम	469
				98/5	निजी	नाथम	1473
				210/8ए1	निजी	मनई	30
				210/8बी1	निजी	मनई	33
				210/8सी1	निजी	मनई	88
				210/8डी1	निजी	मनई	43
				210/8ई1	निजी	मनई	28
				210/8एफ1	निजी	मनई	80
				210/71	निजी	मनई	1
				210/7एफ	निजी	मनई	11
				210/15सी	निजी	मनई	58
				210/15डी	निजी	मनई	12
				772/21बी	निजी	मनई	45
				772/22	निजी	मनई	50
				773/19	निजी	मनई	3
				773/20	निजी	मनई	7
				773/21	निजी	मनई	11
				773/22	निजी	मनई	19
				773/24	निजी	मनई	92
				773/25	निजी	मनई	18
				773/26	निजी	मनई	62
				773/27	निजी	मनई	32
				773/30	निजी	मनई	13
				155/6बी	निजी	शुष्क	28
				209/35	निजी	शुष्क	6
				209/40बी	निजी	शुष्क	7
				209/66	निजी	शुष्क	11
				209/67	निजी	शुष्क	12
				212/9डी	निजी	शुष्क	8
				221/1ई1	निजी	शुष्क	3
				237/7सी2	निजी	शुष्क	10
				247/2ए1ए	निजी	शुष्क	21
				247/4ए1	निजी	शुष्क	6
				777/12बी	निजी	शुष्क	12
				777/18बी	निजी	शुष्क	12
				777/23बी	निजी	शुष्क	6
				777/46	निजी	शुष्क	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				777/47	निजी	शुष्क	13
				777/48बी	निजी	शुष्क	7
				778/11बी	निजी	शुष्क	30
				778/14बी	निजी	शुष्क	21
				781/8बी	निजी	शुष्क	5
				781/18बी	निजी	शुष्क	10
				783/10बी	निजी	शुष्क	20
				783/19बी	निजी	शुष्क	6
			(2) पेडागम	273/1ए	निजी	मनई	26
				273/1बी	निजी	मनई	76
				273/1सी	निजी	मनई	70
				273/1डी	निजी	मनई	120
				273/1ई	निजी	मनई	174
				273/1एफ	निजी	मनई	12
				273/2ए	निजी	मनई	50
				273/2बी	निजी	मनई	50
				275/1बी	निजी	मनई	50
				275/1सी	निजी	मनई	86
				275/1डी	निजी	मनई	91
				275/1ई	निजी	मनई	153
				275/1एफ	निजी	मनई	54
				275/1जी	निजी	मनई	59
				275/1एच	निजी	मनई	175
				276/1बी1	निजी	मनई	120
				276/1बी2	निजी	मनई	50
				276/1बी3	निजी	मनई	130
				276/3ए	निजी	मनई	734
				276/3बी	निजी	मनई	250
				276/3सी	निजी	मनई	414
				276/3डी	निजी	मनई	128
				279/4ए	निजी	मनई	775
				279/4बी	निजी	मनई	235
				279/4सी	निजी	मनई	166
				309/6	निजी	मनई	62
				309/7	निजी	मनई	31
				309/8	निजी	मनई	117
				309/5बी4	निजी	मनई	51
				381/5ए1	निजी	मनई	433
				381/5ए2	निजी	मनई	469

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				381/5ए3	निजी	मनई	313
				381/5ए4	निजी	मनई	85
				381/7ए1ए	निजी	मनई	223
				381/7ए1बी	निजी	मनई	177
				381/7बी1	निजी	मनई	900
				381/8ए1	निजी	मनई	17
				381/8ए2	निजी	मनई	292
				381/8ए3	निजी	मनई	123
				381/8ए4	निजी	मनई	156
				381/8ए5	निजी	मनई	68
				381/8ए6	निजी	मनई	71
				381/8ए7	निजी	मनई	104
				381/8ए8	निजी	मनई	15
				381/8ए9	निजी	मनई	101
				381/8ए10	निजी	मनई	103
			(3) मुण्डियमबकम	30/1जे1	निजी	मनई	51
				163बी/16बी1बी	निजी	मनई	60
				172/43ए	निजी	मनई	54
				191/1ए2ए	निजी	मनई	40
				192/2ए11ए	निजी	मनई	35
				196/3बी2	निजी	मनई	79
				196/15बी	निजी	मनई	45

[फा. सं. 13015/1/99-त्रिची/708]

प्रभाकर, उप-सचिव

3630 GI/06-2

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2006

S.O. 1976(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.45 on the stretch of land from **Km.121/000 to Km.214/300 (Tindivanam – Villupuram – Tiruchirappalli Section)** in District Villupuram in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special District Revenue Officer(Land Acquisition), National Highways, Villupuram, Tamil Nadu, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.121/000 to Km.214/300 (Tindivanam - Villupuram - Tiruchirappalli Section) of the National Highway No.45 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the Taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area(in square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Villupuram	1. Tindivanam	(1) Tindivanam	Tindivanam Town Ward-B Block-4			
				TS No.211/2	Private	Manai	120
				TS No.211/3	Private	Manai	120
				TS No.211/4	Private	Manai	120
				TS No.211/5	Private	Manai	120
				TS No. 213/2	Private	Manai	114
				TS No. 213/3	Private	Manai	120
				TS No. 213/4	Private	Manai	120
				TS No. 213/5	Private	Manai	120
				TS No. 213/6	Private	Manai	120
				TS No. 213/7	Private	Manai	120
				TS No.242/2	Private	Manai	60
			(2) Kaveripakkam	Tindivanam Town Ward-E Block-10			
				TS No. 1/33	Private	Manai	22
				TS No. 1/34	Private	Manai	13
				TS No. 1/35	Private	Manai	6
				TS No. 1/39	Private	Manai	48
				TS No. 1/40	Private	Manai	50
				TS No. 1/41	Private	Manai	35
				TS No. 1/43	Private	Manai	60
				TS No. 1/44	Private	Manai	60
				TS No. 1/47	Private	Manai	60
				TS No. 1/48	Private	Manai	55
			(3) Velangampadi	215/11	Private	Dry	242
				215/12	Private	Manai	338
		2. Villupuram	(1) Ayyur Agaram	98/3	Private	Natham	358
				98/4	Private	Natham	469
				98/5	Private	Natham	1473

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				210/8A1	Private	Manai	30
				210/8B1	Private	Manai	33
				210/8C1	Private	Manai	88
				210/8D1	Private	Manai	43
				210/8E1	Private	Manai	28
				210/8F1	Private	Manai	80
				210/7-I	Private	Manai	1
				210/7F	Private	Manai	11
				210/15C	Private	Manai	58
				210/15D	Private	Manai	12
				772/21B	Private	Manai	45
				772/22	Private	Manai	50
				773/19	Private	Manai	3
				773/20	Private	Manai	7
				773/21	Private	Manai	11
				773/22	Private	Manai	19
				773/24	Private	Manai	92
				773/25	Private	Manai	18
				773/26	Private	Manai	62
				773/27	Private	Manai	32
				773/30	Private	Manai	13
				155/6B	Private	Dry	28
				209/35	Private	Dry	6
				209/40B	Private	Dry	7
				209/66	Private	Dry	11
				209/67	Private	Dry	12
				212/9D	Private	Dry	8
				221/1E1	Private	Dry	3
				237/7C2	Private	Dry	10
				247/2A1A	Private	Dry	21
				247/4A1	Private	Dry	6
				777/12B	Private	Dry	12
				777/18B	Private	Dry	12
				777/23B	Private	Dry	6
				777/46	Private	Dry	14
				777/47	Private	Dry	13
				777/48B	Private	Dry	7
				778/11B	Private	Dry	30
				778/14B	Private	Dry	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				781/8B	Private	Dry	5
				781/18B	Private	Dry	10
				783/10B	Private	Dry	20
				783/19B	Private	Dry	6
			(2) Pedagam	273/1A	Private	Manai	26
				273/1B	Private	Manai	76
				273/1C	Private	Manai	70
				273/1D	Private	Manai	120
				273/1E	Private	Manai	174
				273/1F	Private	Manai	12
				273/2A	Private	Manai	50
				273/2B	Private	Manai	50
				275/1B	Private	Manai	50
				275/1C	Private	Manai	86
				275/1D	Private	Manai	91
				275/1E	Private	Manai	153
				275/1F	Private	Manai	54
				275/1G	Private	Manai	59
				275/1H	Private	Manai	175
				276/1B1	Private	Manai	120
				276/1B2	Private	Manai	50
				276/1B3	Private	Manai	130
				276/3A	Private	Manai	734
				276/3B	Private	Manai	250
				276/3C	Private	Manai	414
				276/3D	Private	Manai	128
				279/4A	Private	Manai	775
				279/4B	Private	Manai	235
				279/4C	Private	Manai	166
				309/6	Private	Manai	62
				309/7	Private	Manai	31
				309/8	Private	Manai	117
				309/5B4	Private	Manai	51
				381/5A1	Private	Manai	433
				381/5A2	Private	Manai	469
				381/5A3	Private	Manai	313
				381/5A4	Private	Manai	85
				381/7A1A	Private	Manai	223
				381/7A1B	Private	Manai	177

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				381/7B1	Private	Manai	900
				381/8A1	Private	Manai	17
				381/8A2	Private	Manai	292
				381/8A3	Private	Manai	123
				381/8A4	Private	Manai	156
				381/8A5	Private	Manai	68
				381/8A6	Private	Manai	71
				381/8A7	Private	Manai	104
				381/8A8	Private	Manai	15
				381/8A9	Private	Manai	101
				381/8A10	Private	Manai	103
			(3) Mundiymbakkam	30/1J1	Private	Manai	51
				163B/16B1B	Private	Manai	60
				172/43A	Private	Manai	54
				191/1A2A	Private	Manai	40
				192/2A11A	Private	Manai	35
				196/3B2	Private	Manai	79
				196/15B	Private	Manai	45

[F. No. 13015/1/99-Trichy/708]

PRABHAKAR, Dy. Secy.